

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1970/चैत्र 13, 1892

No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1970/CHAITRA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1970

S.O. 1301.—Whereas elections have been held in pursuance of the notifications No. S.O. 834, dated the 28th February, 1970, No. S.O. 134, dated the 5th March, 1970 and No. S.O. 963, dated the 10th March, 1970, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of the members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States (except Nagaland) and the members of the electoral colleges of the Union territories of Delhi and Himachal Pradesh, and retiring on the 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the said Act, the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States (except Nagaland) and the members of the electoral colleges of the Union territories of Delhi and Himachal Pradesh and the names of the members nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution are hereby notified for general information:—

Serial No.	Name of Member
------------	----------------

ANDHRA PRADESH

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Shri Katragadda Srinivasa Rao. |
| 2. | Shri K. L. N. Prasad. |
| 3. | Shri Venigalla Satyanarayana. |
| 4. | Shri V. B. Raju. |
| 5. | Shri Damodaram Sanjivayya. |
| 6. | Shri Gaddam Narayana Reddy. |

Serial No.	Name of Member
------------	----------------

ASSAM

- | | |
|----|--------------------------|
| 7. | Shri Emonsing M. Sangma. |
| 8. | Shri Bipin Pal Das. |

BIHAR

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 9. | Shri Abdul Qaiyum Ansari. |
| 10. | Shri Awadeshwar Prasad Sinha. |
| 11. | Shri Shrikant Mishra. |
| 12. | Shri Sitaram Singh. |
| 13. | Shri Chowdhary A. Mohammad. |
| 14. | Shri Bhola Prasad. |
| 15. | Shri Shishir Kumar. |
| 16. | Shri Dharam Chand Jain. |

GUJRAT

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 17. | Shri Manubhai Mansukhlal Shah. |
| 18. | Shri Shamprasad Rupshanker Vasavada. |
| 19. | Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel. |
| 20. | Shri Devdattakumar Kikabhai Patel. |

HARYANA

- | | |
|-----|----------------|
| 21. | Shri Dev Dutt. |
|-----|----------------|

JAMMU AND KASHMIR

- | | |
|-----|------------------------|
| 22. | Shri Tirath Ram Amla. |
| 23. | Shri Mehta Om Prakash. |

KERALA

- | | |
|-----|--------------------------|
| 24. | Shri S. Kumaran. |
| 25. | Shri K. Chandrasekharan. |
| 26. | Shri Mathew Kurian. |

MADHYA PRADESH

- | | |
|-----|--|
| 27. | Shri Bhawaniprasad Tiwari. |
| 28. | Shri Chakrapani Jagannath Prasad Shukla. |
| 29. | Shri Vijaya Bhushan Deosharan. |
| 30. | Shri Sawaisingh Mohabbat Singh. |
| 31. | Shri Balram Das Durgadas. |
| 32. | Sar. Ku. Sambhajirao Angre Chandrojl. |

MAHARASHTRA

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 33. | Shri Chenai, Babubhai Maneklal. |
| 34. | Shri Dharis, Mohan Manikchand. |
| 35. | Shri Bobade, Shankarrao Bajirao. |
| 36. | Shri Goray, Narayan Ganesh. |
| 37. | Shri Kulkarni, Arvind Ganesh. |
| 38. | Shri Sardesai, Shriniwas Ganesh. |

MYSORE

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 39. | Shri K. Nagappa Alva. |
| 40. | Shri B. P. Nagaraja Murthy. |
| 41. | Shri Mulka Govinda Reddy. |
| 42. | Shri K. S. Malle Gowda. |

ORISSA

- | | |
|-----|---------------------------|
| 43. | Shri Bira Kesari Deo. |
| 44. | Shri Surajmal Saha. |
| 45. | Shri Binoy Kumar Mahanti. |

PUNJAB

- | | |
|-----|-----------------------|
| 46. | Shri Inder Kumar. |
| 47. | Shri Gurcharan Singh. |
| 48. | Shri Bhupinder Singh. |
-

Serial No.	Name of Member
RAJASTHAN	
49.	Shrimati Narayani Devi/Manaklal.
50.	Shri Jagdish Prasad.
51.	Shri Mohamod Usman.
TAMIL NADU	
52.	Shri Abdul Samad.
53.	Shri Anandan.
54.	Shri Kanchi Kalyanasundaram.
55.	Shri T. K. Srinivasan.
56.	Shri S. S. Marisamy.
57.	Shri S. S. Rajendran.
UTTAR PRADESH	
58.	Shri Inder Singh.
59.	Shri Uma Shanker Dikshit.
60.	Shri Kalyan Chand.
61.	Shri Tribhuvan Narain.
62.	Shri Triloki Singh.
63.	Shri Dato Pant Thengri.
64.	Shri Nawal Kishore.
65.	Shri Nageshwar.
66.	Shri Mahavir Tyagi.
67.	Shri Mahabir Prasad Shukla.
68.	Shri Shyam Lal Yadav.
WEST BENGAL	
69.	Shri Dwijendralal Sengupta.
70.	Shrimati Purabi Mukhopadhyay.
71.	Shri Bhupesh Gupta.
72.	Shri Salil Kumar Ganguli.
73.	Shri Sasankaselkar Sanyal.
DELHI	
74.	Shri Lal K. Advani.
HIMACHAL PRADESH	
75.	Shri Roshan Lal.
MEMBERS NOMINATED BY THE PRESIDENT	
76.	Shri Jairamdas Daulatram.
77.	Smt. Maragatham Chandrasekhar.
78.	Shri Uma Shankar Joshi.
79.	Prof. Rashid Uddin Khan.

[No. F. 13(1)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विभागीय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1970

का० आ० 1301.—यतः राज्यों की (नागालैण्ड को छोड़कर) विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित और अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त होने वाले राज्य सभा सदस्यों के स्थान भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)

धारा 12 के अधीन निकाली गई अधिसूचना सं० का० आ० 834, तारीख 28 फरवरी, 1970, सं० का० आ० 934, तारीख 5 मार्च, 1970 और सं० का० आ० 963, तारीख 10 मार्च, 1970 के अनुसरण में हो गए हैं ;

अतः अब राज्यों की (नागालैण्ड को छोड़कर) विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित गणों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम और संविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों के नाम उक्त अधिनियम की धारा 71 के अनुसरण में एतद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्रम सं०	सदस्य का नाम
----------	--------------

ग्रान्ध्र प्रदेश

1. श्री कटरागड्डा श्री निवास राव
2. श्री के० एल० एन० प्रसाद
3. श्री बनीगाला सत्यनारायण
4. श्री वी० बी० राजू
5. श्री दामोदरम् संजीवभ्याषी
6. श्री गङ्गुडम नारायण रेड्डी

आसाम

7. श्री हमोनसिंग एम० संगमा
8. श्री बिपिन पाल दास

बिहार

9. श्री अब्दुल कयूम अन्सारी
10. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
11. श्री कान्त मिश्र
12. श्री सीताराम सिंह
13. श्री चौधरी ए० मुहम्मद
14. श्री भोला प्रसाद
15. श्री शिशिर कुमार
16. श्री कर्म चन्द जैन

गुजरात

17. श्री मनुभाई मंसुखलाल शाह
 18. श्री शामप्रसाद रूपशंकर वासवाड़ा
 19. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल
 20. श्री देवदत्तकुमार की का भाई पटेल
-

क्रम संख्या

संबन्ध का नाम

हरियाणा

21. श्री देव दत्त

जम्मू-कश्मीर

22. श्री लीरथ राम अमला

23. श्री मेहस्ता अम प्रकाश

केरल

24. श्री एस. ० कुमारन्

25. श्री के. ० चन्द्रशेखरन्

26. श्री मेथ्यू कुरियन

मध्य प्रदेश

27. श्री भवानीप्रसाद तिवारी

28. श्री चक्रपाणि जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल

29. श्री विजय भूषण देवशरण

30. श्री सवाईसिंह मोहनबब सिंह

31. श्री बलराम दास दुर्गादास

32. श्री कु. ० सम्भाजीराव आग्ने चन्बोजी

महाराष्ट्र

33. श्री चिनाई, बाबुभाई मानिकलाल

34. श्री धारिया, मोहन मानिकचम्ब

35. श्री बोबाडे, शंकरराव बाजीराव

36. श्री गोरे, नारायण गणेश,

37. श्री कुलकर्णी, अरविंद गणेश

38. श्री सरदेसाई, श्री निवास गणेश

मैसूर

39. श्री के. ० मगप्पा अल्ला

40. श्री बी. ० पी. ० नागराज मूर्ति

41. श्री मुत्तक गोविंद रेड्डी

42. श्री के. ० एस. ० मल्ले गोडा

उड़ीसा

43. श्री बीरा केसरी देव

44. श्री सूरजमल साहा

45. श्री विनय कुमार महन्ती

क्रम संख्या सदस्य का नाम

पंजाब

46. श्री हन्वरकुमार
47. श्री गुरचरन सिंह
48. श्री भूपिन्दर सिंह

राजस्थान

49. श्री मती नारायणी देवी/मानकलाल
50. श्री जगदीश प्रसाद
51. श्री मोहम्मद उसमान

तमिल नाडु

52. श्री अम्बुल समद
53. श्री आनन्दन्
55. श्री टी ० के ० श्रीनिवासन्
56. श्री एस ० एस ० मारीसामी
57. श्री एस ० एस ० राजेन्द्रन्

उत्तर प्रदेश

58. श्री इन्द्र सिंह,
59. श्री उमाशंकर वीक्षित
60. श्री कल्याण चन्द
61. श्री त्रिभुवन नारायण
62. श्री त्रिलोकी सिंह
63. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी
64. श्री नवलकिशोर
65. श्री नागेश्वर
66. श्री महावीर त्यागी
67. श्री महावीर प्रसाद शुक्ला
68. श्री श्याम लाल यादव

पश्चिमी बंगाल

69. श्री द्विवेन्द्रलाल सेनगुप्ता
70. श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय
71. श्री भूपेश गुप्त
72. श्री सलिल कुमार गांगुली
73. श्री शशांकशेखर सान्याल

दिल्ली

74. श्री लाल के ० अडवानी

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

हिमाचल प्रदेश

75. श्री रोशन लाल

राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य

76. श्री जयरामदास दोलतराम

77. श्री मती मरागाथम चन्द्रशेखर

78. श्री उमाशंकर जोशी

79. प्रोफेसर रशीद उद्दीन खां

[सं० फा० 13(1)/70-विधा०-II.]

एन० डी० पी० नाम्बुबिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

